



नमो नमो दुर्गे सुख करनी. नमो नमो अम्ये दुःख
हरनी.

निरंकार है ज्योति तुम्हारी. तिहूँ लोक फैली उजियारी.
शशी ललाट मुख महा विशाला. नेत्र लाल भृकुटी
विकराला.

रूप मातु को अधिक सुहावे. दरश करत जन अति सुख
पावे.

तुम संसार शक्ति लय कीना. पालन हेतु अन्न धन धन दीना.

अन्नपूर्णा हुई जग पाला. तुम ही आदि सुन्दरी बाला.

प्रलयकाल सब नाशन हारी. तुम गौरी शिव शंकर प्यारी.

शिव योगी तुम्हारे गुण गावे. ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें.

रूप सरस्वती का तुम धारा. दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा.

धरा रूप नरसिंह को अम्या. प्रकट भई फ़ाड़ कर खम्या.

रक्षा कर प्रह्लाद बचायो. हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो.

लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं. श्री नारायण अंग समाहीं.

क्षीरसिन्धु में करत विलासा. दया सिन्धु दीजै मन आसा.

हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी.

मातंगी धूमावती माता. भूवनेश्वरी बगला सुखदाता.

श्री भैरव तारा जग तारणि. छिन्नभाल भव दुःख निवारिणी.

केहरि वाहन सोहे भवानी. लांगुर वीर चलत अगवानी.

कर में खप्पर खड्ग विराजै. जाको देख काल डर भाजै.

सोहे अस्त्र और त्रिशूला. जाते उठत शत्रु हिय शूला.

नगर कोटि में तुम्ही विराजत. तिहूँ लोक में डंका बाजत.

शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे.

महिशासुर नृप अति अभिमानी. जेही अध भार मही अकुलानी.

रूप कराल कालिका धारा. सेन सहित तुम तिहि संहारा.

परी गाढ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब.

अमर पुरी अरु वासव लोका. तब महिमा सब कहे अशोका.

ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी. तुम्हें सदा पूजें नर नारी.

प्रेम भक्ति से जो यश गावें. दुःख दरिद्र निकट नही आवे.

जोगी सुर नर कहत पुकारी. योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी.

शंकर आचारज तप कीनो. काम अरु क्रोध जीति सब लीनो.

निशिदिन ध्यान धरो शंकर को. काहु काल नहिं सुमिरो तुमको.

शक्ति रूप को मरम न पायो. शक्ति गई तब मन पछतायो.

शरणागत हुई कीर्ति बखानी. जय जय जय जगदम्ब भवानी.

भई प्रसन्न आदि जगदम्बा. दई शक्ति नहिं कीन बिलम्बा.

मोको मात कष्ट अति घरो. तुम बिन कौन हरे दुःख मेरो.

आशा तृष्णा निपट सतावे. रिपु मूरख मोहि अति डर पावै.

शत्रु नाश कीजै महारानी. सुमिरौं एकचित तुम्हें भवानी.

करो कृपा हे मातु दयाला. ऋद्धि-सिद्धि दे करहु निहाला.

जब लगि जियौ दया फ़ल पाऊं, तुम्हरे यश में सदा सुनाऊं.

दुर्गा चालीसा जो कोई गावै. सब सुख भोग परम पद पावै.

देवीदास शरण निज जानी. करहु कृपा जगदम्ब भवानी.